



सुपरब्रेन योग व ध्यान पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन

DN Verma January 8, 2022

1 minute read



याददाश्त तेज करने में छात्र-छात्राओं तथा समाज को मिलेगी मदद

लखनऊ : वैदिक विज्ञान केंद्र जिसकी स्थापना अप्रैल 2015 में स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ के प्रांगण में की गयी , जिससे देश के पौराणिक ग्रंथों में छिपे अध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जन मानस को लाभ पहुंचाया जा सके और इसे

अधिक से अधिक प्रसारित किया जा सके। संस्थान के संस्थापक व अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह व वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉ. भरत राज सिंह , महानिदेशक द्वारा विगत वर्ष में योग दर्शन पुस्तक प्रकाशित हुई थी , जिसका 7-अंतराष्ट्रीय भाषाओं में अनुवादित होकर विभिन्न प्रकाशकों द्वारा विश्व पटल पर जनमानस ने कोरोना महामारी के दौरान अपने जीवन रक्षा में अधिक से अधिक लाभ उठा रहे हैं।

इसी क्रम में, डॉ. भरत राज सिंह, महानिदेशक तथा सतीश कुमार सिंह, ने अपनी दूसरी पुस्तक 'सुपरब्रेन योग व ध्यान ' याददाश्त को कैसे करें तेज ? को सर्वमान्य हिंदी सरल भाषा में लिखकर छात्र /छात्राओं व समाज को लाभ पहुंचाने का एक अनोखा प्रयोग किया है। यह पुस्तक लूलू प्रेस , अमेरिका द्वारा प्रकाशित हुई है और अमेज़न बुक्स पर उपलब्ध है। इसका कॉलेज स्तर पर विमोचन शरद सिंह , सचिव व कार्यकारी अधिकारी , एस.एम.एस., लखनऊ द्वारा किया गया जिसमें कॉलेज के निदेशक , डॉ. मनोज मेहरोत्रा , मुख्य महाप्रबंधक , डॉ. जगदीश सिंह, डीन अकादमी, डॉ. धर्मेन्द्र सिंह आदि सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर , डॉ. सिंह ने बताया कि याददाश्त को तेज करने के लिए भारतवर्ष में वैदिक काल से ही ऋषियों / मुनियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों व शोध द्वारा उठक-बैठक का अभ्यास विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन में कराते थे। इस क्रिया से 2-5 मिनट में कान के दाये व बाये ललाटो को खींचने से मस्तिष्क का बाये व दाये भाग क्री नसें काफ़ी प्रभावी हो जाती थी, जिसके कारण तत्काल याददाश्त बढ़ जाती थी। आजकल इसका प्रचार विदेश के स्कूल व कॉलेजो में भी याददाश्त बढ़ाने हेतु कई वर्षों से किया जा रहा है। इसी क्रम में , ध्यान की सहज विधि को भी पुस्तक में बताया गया है , जिससे शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वायरस व आसाध्य रोगो जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी आदि में भी फायदा मिलता है।

Web Site: <https://ujjawalprabhat.com/release-of-book-published-on-superbrain-yoga-and-meditation/610223/>